



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1944 (श0)  
(सं0 पटना 1051) पटना, शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना  
1 दिसम्बर, 2022

सं० 03/स्था० रा०अ० (64वीं नियुक्ति)-22/2021-625(3)/रा०—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	554784	श्री आकाश रंजन, पिता—श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, पता—निलांगन, आजाद पथ, चांदमारी रोड, पो०—लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, पटना, बिहार, पिन—800020	पटना	12.02.95	547	04—अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04—अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
2	224557	श्री विश्वजीत कुमार, पिता—श्री अरुण कुमार, ग्राम+पो०—गढसराय, थाना—विद्यापति नगर, जिला—समस्तीपुर, पिन—848503	समस्तीपुर	30.01.87	936	04—अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04—अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	

2. (i). नवनियुक्त अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति अधिसूचना निर्गत होने के 07 (सात) दिनों के अन्दर उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (मुख्य सचिवालय) के समक्ष योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

(ii). सभी नवनियुक्त अधिकारी फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल एवं इसकी एक-एक छायाप्रति के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

(iii). सभी नवनियुक्त अधिकारियों को विभाग स्तरीय प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम की सूचना विभागीय वेब-साइट-[www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) के माध्यम से दी जायेगी।

3. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

(ii) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न/गलत सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा नियमानुसार समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

(iii) नवनियुक्त अधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) नवनियुक्त अधिकारियों को फोटो युक्त नियुक्ति अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) सभी नवनियुक्त अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. योगदान के समय नवनियुक्त अधिकारियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक-03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त अधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

7. वैसे नव नियुक्त अधिकारी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अधीन सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कंचन कपूर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1051-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>